

Date: 04/09/2025

To,

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai-400051 (Maharashtra)

Company Symbol: JALAN

<u>Subject: Newspaper Advertisement – Notice 22ND Annual General Meeting, Remote E-Voting & E-voting during Annual General Meeting information and cut-off Date.</u>

Dear Sir/ Madam.

Pursuant to the Regulation 30 read with Schedule III of the Listing Regulations, kindly find annexed copy of Advertisement of 22nd Annual General Meeting as on 27th September, 2025, Saturday at 11:00AM, as published in English Newspaper (Financial Express) (Page No. 33) dated 04th September, 2025 and Hindi Newspaper (Jansatta) (Page No.25), Dated 04th September 2025.

We request you to kindly take the above on record and bring to the notice of all concerned.

Thanking You Yours Faithfully For Jalan Transolutions (India) Limited

SHRUTI GOEL Digitally signed by SHRUTI GOEL Date: 2025.09.04 12:18:37 +05'30'

Shruti Goel Company Secretary cum Compliance Officer

JALAN TRANSOLUTIONS (INDIA) LIMITED

Registered Office 206, Ajanara Bhawan, D-Block Market, Vivek Vihar, Delhi-110095 {INDIA} CIN: L63090DL2003PLC119773 email: info@jalantransolutions.com website: www.jalantransolutions.com



the business set forth in the Notice of AGM.



PRITI INTERNATIONAL LIMITED CIN: L36994RJ2017PLC058454

PLOT NO.F-43, BASNI IST PHASE, JODHPUR, RAJASTHAN-342001 INDIA PHONE: 91-291-3527209, Mobile: 91-9314225699

E-MAIL: g.d.lohiya@gmail.com Website: https://www.pritihome.com NOTICE OF 8TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Eighth (8th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of PRITI INTERNATIONAL LIMITED will be held on Friday, September 26, 2025 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"). Rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard On General Meetings issued by ICSI ("SS-2"), General Circulars No.14/2020 dated 8th April, 2020, No. 17/2020 dated 13th April, 2020, and No. 20/2020 dated 05th May, 2020 (including all the amendments and extensions thereto, the latest one being General Circulars No.09/2024 dated 19th September, 2024) issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars')read with SEBI Circular no. SEBI/ HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and Section VI-J of the SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023, the latest one being SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024 ('SEBI Circular'), to transact

In Compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular the Notice of AGM and the Annual Report has been dispatched by electronic mode to those members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Friday, August 29, 2025 ("Record Date"), received from the Depositories and whose e-mail address is registered with the Company/Depositories Participants or the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company Bigshare Services Private Limited.

Notice is also available on the website of the Company (www.pritihome.com) and the websites of RTA of the Company (ivote bigshareonline.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

The Company has engaged the services of Bigshare Services Private Limited (BigShare) for the purpose of providing remote e-voting facility prior to AGM to all its members, to cast their vote electronically on all resolutions as set forth in the Notice, pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules. 2014 ("Rules"), as amended, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations. The Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice, will be transacted only through voting by electronic means.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The members who will be present in the AGM through VC/ OAVM and have not already cast their vote(s) through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

Voting rights of a Member shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, September 19, 2025 ("Cut-off Date") The e-voting period commences on Tuesday, September 23, 2025, (9:00 AM IST) and ends on Thursday, September 25, 2025 (5:00 PM IST). During this period, members of the Company holding Equity Shares, as on the Cut-off Date may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Bigshare for voting after Thursday, September 25, 2025 (5:00 PM IST). Once the vote on a resolution is cast by a member, he or she will not be allowed to change it subsequently.

The Board has appointed FCA Lucky Nanwani (Membership No. 429997), Chartered Accountant in practice, Partner of S B L and Co LLP, Chartered Accountants (FRN: 0010699C/C400032) Jodhpur, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting prior to AGM and e-voting process during the AGM in a fair and transparent manner. He has communicated his willingness to be appointed and will be available for the said purpose The manner of remote e-voting prior to AGM, e-voting at the AGM and manner of

attending the AGM by way of VC/OAVM, is explained in the Notes to the Notice of Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice

and holding Equity Shares as on cut-off date, may refer to the notes to the Notice of AGM and obtain the login ID and password from BigShare by sending a request at ivote@bigshareonline.com. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the

AGM and in particular, instruction for casting vote through remote e-voting prior to AGM and e-voting at the AGM. The Members are requested to register their E-Mail address by following the procedure prescribed in the AGM Notice.

In case of any queries, members are requested to write an email to ivote@bigshareonline.com or may write to Bigshare Services Private Limited, Office No S6-2. 6th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400093, Maharashtra; and for any gueries, grievances or issues related to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at ivote.bigshareonline.com, under help section or write an email at ivote@bigshareonline.com or contact at 1800 22 54 22.

All communications/queries in this respect should be addressed to Ms. Rashi Shrimal, Company Secretary and Compliance officer of the Company at cs.pritiinternationalltd@gmail.com

For Priti International Limited

Date: September 03, 2025 Place: Jodhpur

Rashi Shrimal Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: A60070

SAI CAPITAL LIMITED

Regd. Office: G-25, GROUND FLOOR, RASVILAS SALCON D-1, SAKET DISTRICT CENTRE, SAKET, NEW DELHI, SOUTH DELHI -110017 (CIN: L74110DL1995PLC069787), E mail: cs@saicapital.co.in, Ph: 011-40234681Website: www.saicapital.co.in

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF M/s. SAI CAPITAL LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (VC/OAVM)

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of Members of M/s. Sa Capital Limited ("Company") is scheduled to be held on Monday, September 29, 2025 at 12:30 P.M. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"). The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. G-25, Ground Floor, Rasvilas Salcon D-1, Saket District Centre Saket, New Delhi, South Delhi -110017

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020 May 5, 2020 January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022. December 28, 2022 & September 25, 2023 respectively, followed by General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and The Securities and Exchange Board of India ("SEBI" vide its Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 October 7, 2023 and October 3, 2024 respectively ("SEBI Circulars for General Meetings" permitted the holding of General Meetings through VC/ OAVM, without the physical presence of Members at a common venue till September 30, 2025.

in compliance with the above Circulars, Notice of Annual General Meeting, Directors' Report Report on Corporate Governance, Standalone & Consolidated Auditor's Reports and Financial Statements for the Financial Year ended on March 31, 2025 and details of Remote E-voting have been sent to all the Shareholders electronically whose e-mail ld. is registered or available with the Company/RTA. The date of completion of sending of Notice of 30th AGM to Shareholders is September 02, 2025.

If your e-mail Id. is not registered with the Company/RTA, kindly follow the below mentioned

A letter providing web-link and QR Code for accessing the Integrated Annual Report for Financial Year 2024-25 will be dispatched to those Shareholders who have not registered their e-mail address with their respective DP/ Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the

Company, i.e. M/s. Alankit Assignments Limited. 1. For Shareholders who hold Shares in physical mode: Shareholders should furnish their e-mail Id., mobile number & other details in Form ISRalong with other relevant Forms as prescribed by SEBI to the Company's Registrar and

Transfer Agent, M/s. Alankit Assignments Limited at their office situated at 205-208, Anarkal Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055, India or at their e-mail ld. i.e The required Forms are available on Company's website at http://www.saicapital.co.in/ and

on Company's RTA's website www.alankit.com.

For Shareholders who hold Shares in Demat mode:

Shareholders should update their e-mail ld. in their Demat account as per the process advised by their respective Depository Participant.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and other applicable provisions of the Companies Act 2013, and Regulation 44 of SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standards on General Meeting ("SS-2") issued by The Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide facility to its Shareholders to cast their vote on all the Resolutions set forth in the Notice convening the 30th AGM using electronic voting system ("remote e-Voting") provided by NSDL. The detailed procedure/instructions in this respect have been provided in notes to the Notice of 30th AGM.

Shareholders of the Company holding Shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date i.e., Monday, September 22, 2025, may cast their vote electronically. The e-Voting period shall commence on Friday, September 26, 2025 (9:00 A.M. IST) and end on Sunday, September 28, 2025 (5:00 P.M. IST). The e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting after 05:00 P.M. (1ST) on Sunday, September 28, 2025. Those who are not Shareholders on the cut-off date should accordingly treat the AGM Notice for information purposes only. Once the vote on a Resolution is cast by the Shareholder he/she shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Shareholders shall be in proportion to the Shares held by them in the total paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date. Shareholders who have already cast their votes through remote e-Voting prior to the 30th AGM, may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. Members attending the 30th AGM who have not cast their votes through remote e-Voting shall be able to exercise their voting rights during the 30th AGM.

Person who acquire Shares and become a Shareholder of the Company after dispatch of the Notice and holds Shares on the Cut-off date i.e. Monday, September 22, 2025, are requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ld. and Password for casting their Vote.

The Company has appointed Ms. Ritu Mahajan, Practicing Company Secretary (CP No. 22918), as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 23, 2025 to Monday, September 29, 2025 (both days inclusive). Shareholders, who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a Speaker by sending a request from their registered e-mail address to cs@saicapital.co.in mentioning their Name, DP ID and Client Id./Folio Number and mobile number at least 7 days prior to the date of AGM i.e. by Monday, September 22, 2025 by 5:00 P.M. (IST). Only those Members, who have registered themselves as a Speaker will be allowed to express their views/ask questions during the 30th AGM depending upon availability of time. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of Speakers depending on the availability of time at the 30th AGM

Shareholders who need assistance before or during the AGM with use of technology or in case of any queries or issues or grievances pertaining to e-Voting, may please refer to Help/FAQ section available at www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Alternatively, Members may also write to the Company Secretary of the Company at cs@saicapital.co.in.

For Sai Capital Limited

Dr. Niraj Kumar Singh

Chairman & Managing Director

INNOVATIVE TECH PACK LIMITED

CIN: L74999HR1989PLC032412 Registered Office: Plot No. 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 Website: www.itplgroup.com, E-mail: grievence@itplgroup.com Tele. No.: 120-7195236-239

NOTICE OF THE 36th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of Innovative Tech

Pack Limited will be held at 09:00 AM on Tuesday, 30th September, 2025 at Hakim Ji Ki Choupal, Opp. Batra Hospital, Vill. Ujina, Police Station Nuh, Sohna, Haryana-122103 to transact such business as set out in the Notice of AGM ("Notice"). Notice along with Annual Report for 2024-25 have been sent through electronic mode to all the

members whose email ID's are registered with company/Depository Participants. The dispatch of Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 03rd September, 2025. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Wednesday, September 24, 2025 to Tuesday, September 30, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the AGM. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read

with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized form at the close of business hours on the cut off date i.e. Tuesday 23rd September, 2025, the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Natice through remote e-vating system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) The procedure and instructions for remote e-voting has been given under the Notice.

The e-voting period will commence on Saturday, 27th September, 2025 at 09:00 am and ends on Monday, 29th September, 2025 at 05:00 pm. The remote e-voting will be disabled by CDSL beyond the said date and time.

The cut off date determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday 23rd September 2025.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e Tuesday 23rd September 2025, may obtain the User Id and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned

The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be allowed to be changed subsequently.

The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM. A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial

owners maintained by the depositories as on the cut off date i.e. Tuesday 23rd September 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM The Notice along with Annual Report is available at the Company's website viz www.itplgroup.com. The Notice is also available on the website of CDSL viz www.cdslindia.com

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited. A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower,

on 022-23058542/43.

Dated: 03rd September, 2025

Place: Noida

Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call For Innovative Tech Pack Limited

Mohit Chauhan

Company Secretary

Place: Delhi

Date: 02.09.2025

Registered Office: G-72, First Floor, Kirti Nagar, Delhi Industrial Area, West Delhi, New Delhi - 110015 Tel.: 011- 45061917, FAX: 45061922, E-mail: compliance4arihant@gmail.com Website: https://arihantclassic.in/

ARIHANT CLASSIC FINANCE LIMITED

INFORMATION REGARDING 30" ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) Members may please note that 30" Annual General Meeting ("AGM") of Arihant Classic Finance

Limited ("the Company") will be held through VC/OAVM on Monday, 29" Day of September 2025 at 01:00 PM (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (ACT) and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirement regulations), 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated 8" April, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest one being General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3" October, 2024 issued by SEBI and other applicable circulars issued in this regard, to transact the business that will be set forth in the In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the 30th AGM and

Annual Report for the Financial Year (FY) 2024-25 will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) (DP). The same will also be available on the website of the Company at https://arihantclassic.in/investorrelations.aspx?type=91. Stock Exchanges i.e. MSE https://www.msei.in/ and NSDL a www.evoting.nsdil.com. The physical copies of the Notice of the 30th AGM along with Annual Report for the FY 2024-25 shall be sent to those Members who request for the same. Additionally in accordance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the Company is also sending a letter to shareholders whose e-mail addresses are not registered with Company/Registrar/DP providing the weblink of Company's website from where the Annual Report for FY 2024-25 can be Manner of Registering/updating email-addresses to receive the Notice of 30th AGM along

) Members holding shares in physical form, who have not registered/updated their email

address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by providing Folio No., Name of the Shareholder, Scanned Copy of the Share Certificates (front/back). PAN (self-attested copy of pan card) and AADHAR (self-attested copy of Aadhar card) to the e-mail address of the Company at compliance4arihant@gmail.com or to the RTA at Member holding shares in demat form, who have not registered/updated their email addresses

with the Depository Participants, are requested to register/update their email addresses with their Depository Participant. Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through

electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting, including voting remotely ("remote •voting") by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail address has been provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM. Joining the AGM through VC/OAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in

Members are requested to carefully read the Notice of the AGM and in particular,

instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or For Arihant Classic Finance Limited

Date 02:09:2025

Mayur Jain

Place: Delhi

voting at the AGM.

Director

JALAN TRANSOLUTIONS (INDIA) LIMITED CIN: L63090DL2003PLC119773

Regd. Off.: 206, Ajnara Bhawan, D-Block Market, Vivek Vihar, Delhi-110095 Corporate Off.: 2F-CS-38, 2nd Floor, Ansal Plaza, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010

Email: info@jalantransolutions.com, Website: www.jalantransolutions.com NOTICE FOR 22nd ANNUAL GENERL MEETING

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Saturday, 27th September, 2025 at 11:00 A.M through Video conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 framed thereunder and the SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular No. 14/2020. 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 dated 08th April, 2020, 13 April, 2020, 05 May, 2020, 13 January, 2020 and 05 May, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CM D1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12 May 2020 and 15 January 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEB) Circulars) without the physical presence of members. at a common venue to transact the business stated in the Notice of 22nd AGM.

Dispatch of Notice of the AGM for the financial year 2024-25 has been completed on 04th September, 2025 to members by electronic mode whose email ID are registered with the company or Depository Participants. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the notice of the AGM. The Annual Report is available and can be downloaded from the company's website www.jalantransolutions.com website of NSDL www.evoting.nsdl.com and stock exchange website www.nseindia.com. E-voting: pursuant to provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule

20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the company is offering remote e-voting facility to its members in respect of business to be transacted at the AGM:

Details of E-voting schedule are as under:

Date: September 4, 2025

Place: Delhi

The cut-off date: Saturday, 20th September, 2025 Date of completion of dispatch of notice; Thursday, 04th September, 2025

Date & time of commencement of e-voting: Wednesday, 24th September, 2025 at

Date & time of end of E-voting: Friday, 26th September, 2025 at 05:00 P.M. E-voting shall not be allowed beyond the date and time mentioned above.

Please note that a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the Depositories as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in or

However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing USER ID and Password can be used for casting vote The members who have casted their vote prior to the AGM may also participate/attend

AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again The Board of Directors of the company has appointed Mr. Manoj Kumar Jain, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to AGM and e-voting.

In case of any queries you may refer to Frequently asked questions and E voting user manual for shareholders available at downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at email ld : evoting@nsdl.co.in or at telephone no 1800-222-990 or at info@nivis.co.in. By Order of the Board For Jalan Transolutions India Limited

Place: GURUGRAM Shruti Goel Date: 03.09.2025 Company Secretary cum Compliance Officer

KALPA COMMERCIAL LIMITED

Regd. Off.: FIRST FLOOR, 984 POCKET C, IFC GHAZIPUR PAPER MARKET, EAST DELHI. **DELHI, INDIA, 110096**

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE The Notice is hereby given that:-

- The 40th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Saturday the 27th day of September, 2025 at 10:00 a.m. at the registered office of the company First Floor, 984 Pocket C, IFC Ghazipur Paper Market, East Delhi, Delhi, India, 110096 to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting
- Electronic copies of the Notice of the AGM along with the Explanatory Statement and Annual Report for financial year 2024-25 have been sent to all the shareholders on or before September 02, 2025, whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s)

Manner of registering/updating email addresses: Shareholders holding share(s) in dematerialized form, are requested to register their email

address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository The notice of the 40th AGM and Annual Report for financial year 2024-25 will also be made available on the Company's website at https://www.kalpacommercialitd.com websites of

the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote or a poll, instead of him/herself and the proxy need not be a member. A person can act as proxy on behalf of members' up to and not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the company. Further, a member holding more than ten percent of the total share capital of the company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person of member. The instrument appointing proxy must be deposited at the registered office of the

company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. During the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting, members would be entitled to inspect the proxies lodged, at any time during the business hours of the Company, provided not less than 3 days written notice is given to the Company.

The Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 21th September, 2025 to Saturday, 27th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AGM) Documents referred to in the notice and the explanatory statement shall be kept open for

to Friday) from 10.00 a.m. to 01.00 p.m. except holidays, upto the date of the meeting. The remote e-voting period begins on 24th September, 2025 at (9:00 A.M IST) and ends on 26th September, 2025 (5:00 P.M IST). The remote e-voting module shall be disabled by Skyline Financial Services Private Limited for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. 20th September, 2025, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as

on the cut-off date, being 23rd September, 2025.

inspection by the members at the registered office of the Company on all working days (Monday

Persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice and who are eligible members as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in.

The Company has appointed M/s Prakash Chander & Associates (Firm Registration No \$2017DE496600), Company Secretary a peer review audit firm), to act as Scrutinizer to conducing the e-voting on the date of AGM, in a fair and transparent manner who shall submit not later than 48 hours of conclusion of the meeting, a Consolidated Scrutinizers Report of the total votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman of the Company or any person authorized by him in writing and the Result shall be declared by the Chairman or any person authorized by him thereafter.

> For and behalf of Kalpa Commercial Limited Ishant Malhotra Managing Director

South West Pinnacle

SOUTH WEST PINNACLE EXPLORATION LIMITED Regd & Corp Office: Ground Floor, Plot No.15, Sector-44, Gurugram-122003

Phone: +91 124 4235400; CIN: L13203HR2006PLC049480 Email: investors@southwestpinnacle.com; Website: www.southwestpinnacle.com NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION

REGARDING BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING Γhe notice is hereby given that:

The 19th Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s South West Pinnacle Exploration Limited ("the Company") will be held on Friday, 26th September, 2025 at 02:30 P.M. (IST) via Video Conferencing ("VC") facility/Other Audio Visual Means ("OAVM") only to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of AGM

In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate 14/2020 dated April 8, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 10/2022 dated 28th December, 2022 09/2023 dated 25th September, 2023 & 09/2024 dated 25th September, 2024 ('MCA Circulars') and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 & SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), the AGM is being conducted through VC/OAVM, the Company has sent the Notice of the 19th AGM along with the link to the Integrated Annual Report for the F.Y 2024-25 on Wednesday 03, 2025 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent/Depositories. The Company in accordance with Regulation 36(1)(b) of the listing regulations, has also sent letter to the members who have not registered their email with the Comapany/RTA/Deposiatory Participant, providing the web link of the Integrated Annual Report along with its relevant details.

Additionally, the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2024 25, inter-alia containing the Notice and Explanatory Statement of the 19th AGM is available on the website of the Company at www.southwestpinnacle.com and also the website of the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

In Compliance with Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended from time to time, Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Companies Secretaries of India on General Meeting and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing "remote e-voting" and "evoting" facility to its Members before and during the AGM in respect of the Ordinary Business and Special Business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are

The instruction for participating through VC/OAVM and process of remote e-voting before or during the AGM including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting, are provided as part of Notice of the 19th Annual General

The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 23, 2025 at 9:00 AM IST.

iii. The remote e-voting shall end on Thursday, September 25, 2025 at 5:00 PM IST. iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the

AGM is Friday September 19, 2025. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. September 19, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.

vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility of e-voting system shall also be made available during the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositors as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before/during the AGM.

vii. In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholder available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL by email at evoting@nsdl.co.in. viii. Members who need assistance before or during the AGM, can contact

NSDL on evoting@nsdl.co.in / 022 - 48867000 or contact company at investors@southwestpinnacle.com Further the board of Directors of the Company has appointed Mr. Krishna Kumar Singh

proprietor of M/s KKS & Associates, Company Secretaries for scrutinizing the remote e-voting process as well as voting during the AGM in fair and Transparent Manner. The result of remote e-voting and voting during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The declared results along with Scrutinizer's Report shall be place on the website of the Company at www.southwestpinnacle.com and also the website of the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e www.nseindia.com and www.bseindia.com

Details regarding Book Closure.

a. Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Regulations, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 20, 2025 to Friday, September 26, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 19th AGM for the F.Y 2024-25. b. The Company has fixed Friday, September 19, 2025 as 'Cutoff Date' for the

purpose of determining entitlement of the members of the Company to vote for 19th Annual General meeting of the Comapany. c. For Registration of E-mail id and mobile number for Demat shareholders (as 100%) shareholding of Company in demat form) the Members are requested to register their e-mail address/mobile number/other details, in respect of demat holdings

prescribed by the Depository Participant d. Shareholders are advised to update the details with Depository Participant (on permanent basis) to ensure ease of communication and seamless remittances (as 100% shareholding of company in demat form). No action is required from the shareholders whose email addresses, Mobile numbers and Bank Mandate are

already updated in Company/Depository record. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM.

All communications/queries in this respect should be addressed to our e-mail address at investors@southwestpinnacle.com

BY AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS SOUTH WEST PINNACLE EXPLORATION LIMITED Sd/

> **VIKAS JAIN CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR** DIN-00049217

CLARKS GROUP OF HOTELS

U. P. HOTELS LTD.

CIN: L55101DL1961PLC017307 Regd. Office: 1101-1102, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Phone: 011-23722596-8

Notice is hereby given that the 64th (Sixty Fourth) Annual General Meeting ('AGM') of the

Email: clarkssuryakiran@yahoo.co.in, Website: www.hotelclarks.com NOTICE OF 64™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

members of U. P. HOTELS LIMITED ("Company") will be held on Tuesday the 30th day of September, 2025 at 2:30 p.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) to transact the items of Ordinary Businesses & Special Businesses as set out in the AGM Notice dated 13th August, 2025 in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with the circulars issued earlier in this regard (Collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read with the circulars issued earlier in this regard (Collectively referred to as "SEBI

Participant(s). A letter containing the weblink and QR Code of the Annual Report for the financial year 2024-25 is being sent at the registered addresses of the shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s). Shareholders holding shares in demat mode whose e-mail addresses are not registered may get their e-mail address registered with their respective Depository Participant(s), and Shareholders holdings shares in physical mode are requested to update their E-mail addresses with Company's RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited, by clicking

cut-off date being 23rd September, 2025 may cast their vote on all the business items as set out in the said AGM Notice through remote e-voting to be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

13.08.2025 may be transacted by remote e-Voting and e-Voting during the AGM. iii. The date of completion of dispatch of Notice of 64th AGM: 03.09.2025

iv. The date and time of commencement of remote e-voting: 27th September, 2025 and 9:30 a.m. v. The date and time of end of remote e-voting: 29th September, 2025 and 5:00 p.m. vi. Book Closure: The Register of Members and Share Transfer Books of the company will

vii. The cut-off date for determining the eligibility of members to vote by remote e-voting or e-voting at the AGM: 23.09.2025.

29.09.2025. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

vote through remote e-voting are provided in the Notice of AGM. Please note that same login credentials are required for participating in the AGM through VC/OAVM and e-voting on resolutions during the AGM. Members joining the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. The voting rights of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-of date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. Website address of the Company and agency-NSDL where Notice is displayed

xiii. In case of any gueries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the Downloads

Office – 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001. Telephone

Place: New Delhi Date: 03.09.2025 (Prakash Chandra Prusty) Company Secretary M. No.: ACS 14624

Infollion research services limited

Registered & Corporate Office: 5th Floor, Tower C, Unitech Cyber Park Sector 39, Gurugram, Haryana 122001 IN | Phone No.: +91-124-4272967 E-mail: investors@infollion.com | Website: www.infollion.com

NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING - INFORMATION ON E-VOTING NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Infollion Research Services Limited (the 'Company') will be held on Friday, September 26, 2025 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM") facility without the presence of the Members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with General Circular No.s 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, and other relevant circulars including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Master Circular July 11, 2023 read with Circular dated October 07, 2023, issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and other applicable related circulars, it any, on this matter, issued by MCA and SEBI (collectively referred as 'AGM related circulars"), to transact the business set out in the Notice convening the 16th AGM. Members shall be able to attend and participate in the 16th AGM only through VC/OAVM facility. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of

Ltd)., Registrar & Share Transfer Agent ('RTA'/'MUFG Intime') as a service provider to provide VC facility and e-voting facility for the AGM. In compliance with the AGM related circulars, the Notice of 16th AGM and Annual Report for the FY 2024-25, have been sent on Wednesday, September 3, 2025, through electronic mode only, to all those Members who have registered their e-mall addresses with the Company/the Company's RTA or with Depository Participants ('DPs'). The aforesaid documents which also details the process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM are available on the Company's website at https://investors.infollion.com/16th-annual-general-meeting, website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and on the

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act, read with Rules made there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2), issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing its Members (holding shares either in physical or in dematerialized form), the facility to exercise their right to vote through electronic means ('e-voting'), on any or all resolutions set out in the Notice of the AGM. Members may cast their votes remotely ('remote e-voting'), on the dates mentioned here-Inbelow, using the electronic voting platform of MUFG Intime. During this period, Members can select Event No. 250528 to cast their vote electronically. The remote e-Voting module will be disabled by MUFG Intime thereafter. The facility to vote through electronic voting system shall also be made available for Members during the AGM and Members attending the AGM,

 All the business as set out in the Notice of 16th AGM will be transacted through electronic means i.e., through remote e-voting or e-voting at the AGM;

and shall end on Thursday, September 25, 2025, at 5.00 P.M. IST. The remote e-Voting will not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently The Cut-off Date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or e-voting

during the 16th AGM, is Friday, September 19, 2025. d) Any person who has become a member of the Company after sending of Notice of the 16th AGM via email and hold shares as on the cut-off date i.e., Friday, September 19,

2025, may obtain the login ID and password by following the instructions as mentioned in and password can be used for casting the votes.

through remote e-Voting/e-Voting at the AGM. The Members will be provided with the facility for e-Voting at the AGM and those Members participating at the AGM & who have not already cast their vote by remote e-

g) The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/ OAVM, but shall not be eligible to vote again at

may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the Notice of the 16th AGM, Members who have not registered their email ids, are requested to register the same as per process mentioned below for receiving all communications with the respective Depository Participant (DP) by following the procedure including Annual Report, Notices etc. from the Company electronically: In case of physical mode-duly signed Form ISR-1 along with supporting documents to the

> Company at www.infollion.com. register/verify/update their email address, mobile number and bank account details with

> their respective DPs. If the email id of a member is already registered with the Company/ RTA/DP, login credentials for e-voting will be sent on the respective Member's registered email id, along with the Notice of the 16th AGM and Annual Report for FY 2024-25.

> > For INFOLLION RESEARCH SERVICES LIMITED

The notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 are being sent only through electronic mode to all the shareholders whose e-mail addresses are

the link: www.skylinerta.com/EmailReg.php and following the registration process as guided

All the items of Ordinary & Special Businesses as set out in the AGM Notice dated

be closed from Tuesday the 23rd September, 2025 to Tuesday the 30th September, 2025 (both days inclusive).

viii. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m. on

www.hotelclarks.com and www.evoting.nsdl.com respectively. Further, the Annual Report & Public Notice (newspaper publication) shall be displayed on the website of the Company and Stock Exchange at www.hotelclarks.com and www.bseindia.com

section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. iv. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with remote e-voting: Mr. Prakash Chandra Prusty, Company Secretary at Registered

CIN: L73100HR2009PLC126450

quorum under Section 103 of the Act. The Company has appointed MUFG Intime India Pvt. Ltd (Formerly Link Intime India Pvt.

who have not cast their vote(s) by remote e-voting, will be able to vote at the AGM through e-

Remote e-voting will commence on Tuesday, September 23, 2025, at 9.00 A.M. IST

the Notice of the 16th AGM or by sending a request to MUFG Intime at enotices@in.mpms.mufg.com or contact on: -Tel: 022 - 49186000. However, if a person is already registered with Link Intime InstaVote for remote e-Voting then existing user ID The voting rights of member(s) shall be in proportion to their shares in the Paid-up Equity

Voting before the AGM, will be eligible to vote at the AGM.

Manner of registering / updating email address, mobile number and bank account mandate: Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP,

Company Secretary at investors@infollion.com.

New Delhi

epaper.financialexpress.com

CIN: L74899DL1985PLC022778 Email: infokalpa2@gmail.com Website: www.kalpacommercialltd.com

Circulars") respectively. registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA")/Depository

thereafter. In case of any queries, Member may write to compliances@skylinerta.com in this regard. All the members are informed that:

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the

x. The Company has engaged the services of NSDL & RTA to provide VC/OAVM facility for the AGM. The manner of joining the AGM through VC/OAVM and manner of casting

members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on 23.09.2025 being the cut-off date. Members whose name is recorded in the register of members or in the register of

Number: 011-23722596-8, E-mail Id.: clarkssuryakiran@yahoo.co.in. By the Order of the Board of Directors for U. P. Hotels Limited

All Members are hereby informed that:

Share Capital of the Company as on the cut-off date i.e., Friday, September 19, 2025. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be only entitled to vote

Company's RTA- MUFG Intime India Private Limited (Formerly MUFG Intime India Private Limited), either at their office at Plot No.NH-2 ,C-1 Block, "Noble Heights" 1st Floor, LSC Near Savitri Market, Janak Puri, Phone: +91-11-49411000 or by email at vishal.dixit@in.mpms.mufg.com. The said form is also available on the website of the Members holding Equity Shares of the Company in demat form are requested to

in case of any query or grievance, in respect of e-voting by electronic means, Members are request to send a request to MUGF Intime at enotices@in.mpms.mufg.com or write to the

Date: September 4,2025 Megha Rastogi Company Secretary & Compliance Officer Place: Gurugram

Date: September 03, 2025

Place: New Delhi

IndiaShelter

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्यालय: प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम,

यह शुद्धिपत्र इस समाचार पत्र में दिनांक 27-08-2025 को प्रकाशित HL11CHLONS000005082466/AP-10198525 श्री/श्रीमती बबीता उपाध्याय पत्नी हरीश चंद्र उपाध्याय, श्री / श्रीमती हरीश चंद्र उपाध्याय पुत्र सुनील कुमार उपाध्याय के मामले में सरफासी ऐक्ट की धारा (नियम ८(६) और ९(१) के तहत प्रकाशित अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत् बिक्री सूचना के

त्रुटिपूर्ण लेखन : सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर बी-05, क्षेत्रफल 560 वर्ग गज, खसरा नंबर 62, ग्राम चकबंकट, परगना— माहोना, तहसील— बक्सी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश — 226021, चौहद्दी : पूरब : रोड 20 फीट चौड़ी, पश्चिम : खाली प्लॉट सी—5, उत्तर खाली प्लॉट, दक्षिण : खाली प्लॉट सी-4

कृपया सम्पत्ति का वर्णन निम्नानुसार पढ़ें : सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर बी-05,

क्षेत्रफल 560 वर्ग फीट, खसरा नंबर 62, ग्राम चकबंकट, परगना— माहोना, तहसील— बक्सी का तालाब, लखनऊ. उत्तर प्रदेश - 226021

यह परिवर्तन पूर्वतर प्रकाशन के अंश एवं खंड के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

तिथि : 04-09-2025 स्थान : लखनऊ

वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

अधिग्रहण सूचना

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीर परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, ऋणकर्ता(ओं) / सह—ऋणकर्ता(ओं) को मांग सुचनायें निर्गत की थीं, जिनमें ऋणकर्ताओं को उक्त सुचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर उक्त सुचनाओं में निम्न तालिका में वर्णित संबंधित नामों के समक्ष अंकितानुसार राशि का राशि पर प्रयोज्य दरों पर आकलित ब्याज और भुगतान तथा / अथवा वसूलीकरण की तिथि तक वहनकृत प्रयोज्यानुसार भावी ब्याज आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि का प्रतिभूगतान करने को कहा गया था।

क्र सं		ऋणकर्ता / सह—ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता का नाम	13(2) सूचना तिथि/ बकाया देय (रु. में) इस तिथि को	अधिग्रहण की तिथि/समय एवं प्रकार
1.	45128958824791 ਰथा 45129670000304	1) मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग, इसके स्वामी द्वारा प्रतिनिधित्व श्री नरसिंह यादव, 2) श्री नरसिंह यादव (उधारकर्ता), 3) श्रीमती सरोज देवी (गारंटर)	13.06.2025 रू. 8,74,187 / — (रुपये आठ लाख चौवहत्तर हजार एक सौ सत्तासी मात्र) 12.06.2025 के अनुसार	दिनांक : 29.08.2025 समय : 3:16 अपराह्म साँकेतिक अधिग्रहण

संपत्ति का विवरण : प्लॉट संख्या जी–90, भृमि क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 100/24 में से, कराला गाँव और राजीव नगर, दिल्ली नामक आबादी में स्थित, श्री नर सिंह पुत्र श्री |रामजी यादव के स्वामित्व में। सीमा :– पूर्व : प्लॉट संख्या जी–91, पश्चिम : प्लॉट संख्या जी–90, उत्तर : सडक 20" फीट, दक्षिण : जी 90–बी।

चुंकि यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता / सह—ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्तागण निर्धारित देयराशि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चके हैं. अतएव एतदद्वारा यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां इसमें उपरोक्त विवरणित संपत्तियों / प्रतिभृत परिसंपत्तियों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 र्के उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उपरांकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं / सह-ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उपर्युक्त संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लेन-देन न करें तथा उक्त संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों क कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

स्थान : दिल्ली राराक्षे दिनाँक : 04--09--2025

कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

हस्ता. / –प्राधिकृत अधिकारी

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय :- द फेयरवे, भू एवं प्रथम तल, सर्वे नं 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोम्लुर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के समीप, छल्लाघट्टा, बैंगलोर— 560071, शाखा कार्यालय : 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली— 110005

फर्स्ट कैपिटल इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 11वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 फोन नं.: 011-43621200, CIN: U74899DL1994PLC057651

ई-मेल आईडी: nghai@dalmiaholdings.com

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, और भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लाग प्रावधानों तथा उसके तहत जारी सभी लागू सर्कुलर के अनुपालन में कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 3:00 बजे भा.मा. स. में वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजअल माध्यम ("ओएवीएम") सविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमे उक्त बैठक बुलाने की सुचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय को निष्पादित किया जाएगा।

उपरोक्त सर्कुलर के अनुपालन में एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुई वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी अपने सदस्यों को सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डालने की

सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। ई-वोटिंग से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं: . एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करके पूरा किया जायेगा।

. रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी।

3. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। . इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि

23 सितंबर, 2025 है।

कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि, यानी 23 सितंबर, 2025 तक शेयर धारित कर्ता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर

लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्य कृपया ध्यान दें: क) उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा और एक बार जब किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है तो उसे बाद में बदलने की अनुमित नहीं होगी; ख) ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी;

ग) वह सदस्य जिसने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वह एजीएम में शामिल तो हो सकता है, लेकिन दोबारा वोट डालने का हकदार नहीं होगा: घ) केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह मतदान की दोनों सुविधाओं का लाभ उठाने का हकदार होगा, यानी या तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से।

एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। . किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पृछे जाने वाले प्रश्न (FAOs) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल को www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित शिकायतों का भी समाधान करेगा। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स ऊपर बताई गई समय-सारणी के अनुसार आयोजित होने वाली 31वीं वार्षिक आम बैठक के समय 23.09.2025 से 30.09.2025 तक (दोनों दिन शामिल) बंद

फर्स्ट कैपिटल इंडिया लिमिटेड के लिए

नरेश कुमार घई

नई दिल्ली 03 सितंबर, 2025



💵 जालान ट्रांसोल्यूशन्स (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन:L63090DL2003PLC119773

पंजीकृत कार्यालयः 208. अजनारा भवन, डी-ब्लॉक मार्केट, विवेक विहार, दिल्ली-110095 कॉर्पोरेट कार्यालय: २एफ-सीएस-38, द्वितीय तल, अंसल प्लाजा, यैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

ईमेलः info@jalantransolutions.com। वेबसाइटः www.jalantransolutions.com

22वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज्ञाल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों 2015 के अनुपालन में जनरल सर्क्यलर 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020, 02 / 2021 और 02 / 2022 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2020 और 05 मई, 2020 के साथ क्रमश पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं 10 / 2005-स्था सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएम डी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 12 मई 2020 और 15 जनवरी 2021 को भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी परिपन्न) द्वारा 22वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय को संचालित करने के लिए एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एजीएम की सूचना का प्रेषण 04 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिव मोड द्वारा उन सदस्यों को पूरा कर लिया गया है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। सदस्य केवल VC/OAVM के माध्यम से AGM में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं । एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या वोट डालने के तरीके को एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.jalantransolutions.com एनएसडीएल www.evoting.nsdl.com की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट

www.nseindia.com से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-वोटिंगरू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध है

ई-वोटिंग अनुसूची का विवरण निम्नानुसार है:

कट-ऑफ तिथिः शनिवार, 20 सितंबर, 2025

दिनांक: 4 सितंबर, 2025

स्थानः दिल्ली

सूचना भेजने की तिथि पूरी होने की तिथि: गुरुवार, 04 सितंबर, 2025

अपने सदस्यों को दूरस्थ ई—वोटिंग सुर्विधा प्रदान कर रही है:

ई—वोटिंग शुरू होने की तिथि और समयः बुधवार, 24 सितंबर, 2025 सुबह 09:00 बजे ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समयः शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 शाम 05:00 बजे उपर्युक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट—ऑफ तारीख के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिक के रजिस्टर में दर्ज किया गया है वह evoting@nsdl.co.in या info@nivis.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है ते मीजदा यजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले अपना वोट डाला है, वे भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं / भाग लें सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे

कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी सचिव श्री मनोज कुमार जैन को एजीएम और ई-बोटिंग के लिए जांचकर्ता नियक्त किया है।

किसी भी प्रश्न के लिए आपwww.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध शेयरधारके

के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या एनएसडीएल से ईमेल आईडी evoting@nsdi.co.in या टेलीफोन नंबर 1800–222–990 या info@nivis.co.in पर संपर्क कर सकते हैं । बोर्ड के आदेशानुसार जालान ट्रांसोल्युशंस इंडिया लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरकर्ता /-श्रुति गोयल कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

एसपीए कैपिटल सविसेज लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय: 25. सी-ब्लॉक कम्यनिटी सेंटर, जनकपरी, नई दिल्ली 110058 वेबसाइटः http://www.spacapital.com/CapitalServices/, CIN: L65910DL1984PLC018749, दूरभाष सं.: 011-45675500, ईमेल आईडी: listing@spacapital.com

41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और रिमोट ई-वोटिंग की सुचना एतद्वारा सूचित किया जाता है किः ।. एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को कंपनी के

पंजीकृत कार्यालय में सुबह 11:00 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को निष्पादित

. कंपनी ने 3 सितंबर, 2025 को एजीएम की सूचना युक्त वार्षिक रिपोर्ट को सदस्यों को भेज दिया है जो उन सदस्यों को भौतिक रूप से भेजी गई है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं. और उन सदस्यों जिनके पास डीमैट रूप में शेयर हैं. को एन.एस.डी.एल./सी.डी.एस.एल. से डाउनलोड किए गए डेटा के अनसार स्वीकत माध्यम से भेजी गई है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट http://www.spacapital.com/CapitalServices/ पर उपलब्ध

हैं और एजीएम की तारीख तक सभी कार्य दिवसों (रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) के दौरान सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध रहेंगी। 3. कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम. 2014 के नियम 10के साथ पठित सेबी (सुचीकरण दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को होने वाली कंपनी की एजीएम के उद्देश्य से 22 सितंबर, 2025

से 29 सितंबर, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

दिनांक: 03-09-2025

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से (रिमोट ई-वोटिंग) सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके लिए कंपनी ने ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में एन.एस.डी.एल. की सेवाओं को प्राप्त किया है। इसके अलावा, एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भा. मा.स.) से शुरू होगी और रविवार, 28 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (भा. मा.स.) में समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जिनके पास 22 सितंबर, 2025 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, वे इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि रविवार, 28 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (भा. मा. स.) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। . ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, सदस्य https://www.evoting.nsdl.com/ में 'सहायता' अनुभाग के तहत उपलब्ध 'सदस्यों के लिए सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' और 'ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.com पर ईमेल लिख सकते हैं या किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए कंपनी से ईमेलः listing@spacapital.com पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी की एजीएम के दिन या उसके बाद घोषित किए जाएंगे और कंपनी/आरटीए/एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के लिए

हस्ता./ स्थानः नई दिल्ली संदीप परवाल

AMTL

एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L31401DL2011PLC271394 पंजीकृत कार्यालयः ई–8/1, गीता भवन मंदिर के पास, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017 कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-4 से सी-11, होजरी कॉम्प्लेक्स,

फेज—II एक्सटेंशन, नोएडा—201305 (उत्तर प्रदेश) दूरभाष संख्याः 0120-6958777 वेबसाइटः https://www.pkrgroup.in इमेलः corporate@pkrgroup.in 14वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

तदद्वारा सुचित किया जाता है कि एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 14वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को सुबह 10.30 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से 14वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित अनुसार कार्यवाही का संचालन करने के लिए आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अनुपालन में, 5 मई, 2020, 19 सितंबर, 2022 के एमसीए परिपत्रों और समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित, 14वीं एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट 4 सितंबर, 2025 को उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनीधडिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी ने उन सदस्यों को भी पत्र भेजे हैं जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें वेबलिंक प्रदान किया गया है जहाँ से वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकती है। यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है,तो कृपया अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

कंपनी को corporate@pkrgroup.in पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति और किसी एक दस्तावेज (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के लिए प्रदान करें।

डीमैट कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर

होल्डिंगः अपडेट करें। सदस्य कृपया ध्यान दें कि 14वीं एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pkrgroup.in और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। 14वीं वार्षिक आम बैठक की सचना ई—वोटिंग एजेंसी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

कंपनी अपने सदस्यों को 14वीं वार्षिक आम बैठक में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग और / या वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा

(इंडिया) एनएसडीएल की वेबसाइट एदेकसण्बवउ पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होकर 29 सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को कंपनी की इक्विटी पंजी में उनके शेयरों के चुकता मूल्य के अनुपात में होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो 14वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह वोट डालने हेतू लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए 14वीं एजीएम की सूचना देख सकता है। हालाँकि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। र्डमेल आईडी / पते पंजीकृत करने का तरीकाः

(i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, 4ई /2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 पर जमा करें या ramap@alankit.com पर ईमेल करें। (ii) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत / अपडेट करें।

ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न ∕ समस्या के लिए, आप एनडीएसएल की वेबसाइट अर्थात evoting@nsdl.com के सहायता अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं,या एनएसडीएल के हेल्पडेस्क पर 022-4886 7000 पर कॉल करें।

एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 04.09.2025

आलोक कुमार पांडे कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

JAY USHIN LIMITED

GI-48, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi- 110033 CIN: L52110DL1986PLC025118, Website: www.jpmgroup.co.in, E-mail: julinvestors@jushinindia.com Phone: 91(124)-4623400

INFORMATION REGARDING 39TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of Members of M/s. Jay Ushin Limited ("Company") will be held on Monday, September 29, 2025 at 11.00 A.M. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary & Special businesses as set out in the Notice of the AGM. In compliance with Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') circular No. 9/2024 dated 19th September, 2024, read with circulars issued earlier on the subject (collectively referred to as 'MCA Circulars') & SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 and all other applicable laws, rules, regulation issued by Ministry of Corporate Affairs, Securities & Exchange Board of India, as amended from time to time.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, and in compliance with the Listing Regulations, the Annual Report for the Financial Year 2024-25 ("Annual Report") along with the Notice of AGM will be sent only through electronic mode to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the 39th AGM along with Annual Report for Financial Year 2024-25 shall be sent to those Members who request for the same. If your e-mail ld. is not registered, then the below mentioned procedure may be followed:

To access the Annual Report for Financial Year 2024-25 along with the Notice of AGM, can be downloaded from the following link https://jpmgroup.co.in//upload/annual_reports_voting_results/Jay-Ushin-Annual-Report-2025_03-09-2025-11-18-17.pdf. The same is also available on the websites of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com and the Stock Exchanges i.e. BSE Limited www.bseindia.com respectively.

For Shareholders who hold Shares in Physical mode:

Shareholder should furnish their e-mail Id., mobile number & other details in Form ISR-1 along with other relevant forms as prescribed by SEBI to the Company's Registrar and Transfer Agent, RCMC Share Registry Private Limited on investor.services@rcmcdelhi.com

2. For Shareholders who hold Shares in Demat mode:

Shareholder should update their e-mail ld, in their Demat Account as per the process advised by their respective Depository Participant.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only, and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The instructions for joining the AGM and the detailed procedures for e-voting provided in the Notice of the AGM.

The Company has fixed the Saturday, September 19, 2025 as the record date for determining entitlement of members for payment of final dividend for FY 2024-25, if approved in AGM, and to avail the facility of remote evoting / voting at the meeting.

Shareholders are also informed that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules as framed thereunder, as amended from time to time, the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from September 20, 2025 to September 29, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company to be held on Monday, September 29, 2025 at 11:00 A.M. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

For Jay Ushin Limited Sd/-

Jyoti Kataria Company Secretary

कल्पा कमर्शियल लिमिटेड

CIN: L74899DL1985PLC022778 पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल. 984, पाँकेट C, आईएकसी गाजीपुर पेपर मार्केट, पूर्वी दिल्ली, विल्ली, भारत-110096

ईमेलः infokalpa2@gmail.com वेवसाइटः www.kalpacommercialitd.com 40वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और पुस्तिका बंदी की सूचना

कंपनी के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2025 को प्रात: 10:00 बजे कंपनी के पंजीकत कार्यालय - प्रथम तल 984, पॉकेट C आईएफसी गाजीपर पेपर मार्केट, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली - 110096 में आयोजित की जाएगी, जिसमें बैठक के नोटिस

में उल्लिखित व्यापारिक विश्वयों पर विवार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, बैठक का नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण की

इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी शेयरधारकों को 02 सितम्बर 2025 तक भेजी जा थकी हैं जिनकें ईमेल पते कंपनी / ढिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत हैं।

ईमेल पता पंजीकत/अपडेट कराने की विधिः जिन शेयरघारकों के शेयर ढीमैट रूप में हैं, वे कृपया अपने विपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम

से ईमेल पता और मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं।

40वीं AGM का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट (2024-25) कंपनी की वेबसाइट https:// www.kalpacommercialltd.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले सदस्य, अपने स्थान पर एक प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिनिधि कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति अधिकतम 50 सदस्यों के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है और कुल मिलाकर कंपनी की 10% तक की शेयर पूंजी को ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि कोई सदस्य 10% से अधिक शेयर पूंजी रखता हैं, तो वह कंवल एक ही व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, और वह व्यक्ति किसी अन्य सदस्य के लिए प्रतिनिधि नहीं बन सकता। प्रतिनिधि नियक्त करने का प्रपन्न बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा

बैठक प्रारंभ होने से 24 घंटे पूर्व से लेकर बैठक समाप्त होने तक, कोई भी सदस्य, 3 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर, कंपनी के व्यापारिक समय के दौरान, दायर किए गए प्रतिनिधि प्रपत्नों का निरीक्षण कर सकता है।

कंपनी के सदस्यों की रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तिकाएं. AGM के उद्देश्य से रविवार, 2 सितम्बर 2025 से शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेंगी।

नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में चिल्लिखित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यदिवसों (सोमवार से शुक्रवार) को प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक, बैठक की तिथि तक निरीक्षण के लिए खले रहेंगे।

रिगोट ई-वोटिंग की अवधि 24 सिवम्बर, 2025 को प्राय: 9:00 बच्चे (IST) से प्रारंग होकर 26 सिराम्बर, 2025 को सार्व 5:00 बजे (IST) तक चलेगी। इसके बाद ई-वोटिंग पोर्टल Skylne Financial Services Private Limited द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम 20 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सितम्बर, 2025 को रजिस्टर ऑफ गेंबर्स / बेनिफिशियल ओनर्स में डोंगे, वे ई-बोटिंग के लिए पात्र होंगे। वोटिंग अधिकार शेयरधारक के पास उस दिन की मुगतान की गई अंश पूंजी में हिरसेदारी के अनुपात में होगा, जो कि 23 सितम्बर, 2025 है।

> जिन व्यक्तियों ने AGM का नोटिस मिलने के बाद शेयर खरीदे हैं और कट-ऑफ तिथि (20 शितम्बर, 2025) को सदस्य बन गए हैं, वे ई-वोटिंग के लिए evoting@nsdl.co.in पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।

कंपनी ने M/s प्रकाश चंदर एंड एसोसिएट्स (फर्म रजिस्ट्रेशन नं. \$2017DE496600) को AGM के दिन ई-वोटिंग के निष्पक्ष और पारदर्शी संवालन के लिए स्कृटिनाइजर नियुक्त किया है। वे बैठक के समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर, वोटिंग का संयुक्त स्कृटिनाइजर रिपोर्ट कंपनी के चेयरमैन या जनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति को साँपेंगे। परिणाम की घोषणा चेयरमैन या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली ग) 03.05.2024 को भौतिक

कंपनी की ओर सं करपा कमर्शियल लिमिटेड हस्ता / इशांत मल्होत्र प्रबंध निदेशक

एसएबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय: SCO 49-50, सेक्टर 26, मध्य मार्ग, चंडीगड़-160019. प्रभाग: +91-172-2793112, प्रभा: +91-172-2794834 इमेल: ssl_ssg@glide.net.in, वेक्साइट: www.sabindustries.in 41वीं वार्षिक आम बैठक की मूचना, ई-बोटिंग मूचना और बुक क्लोजर। इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि:

CIN: L00000CH1983PLC031318

कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक (41वीं वार्षिक आम बैठक) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अपराहन 3:00 बजे जायोजित होने बानी है। दिनांक 13:08:2025 के नोटिस में निर्धारित कारोबार करने के लिए एमसीओ 49-50, सेक्टर 26, मध्य मार्ग, चंडीसड-160019

2. कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैटक (नोटिस) की सूचना और विलीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पत्ते पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दी गई हैं। उन सदस्यों

को जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओ) के पास पंजीकृत है। प्रेपण 2 सितंबर, 2025 को परा हो गया है और यह कंपनी की वेबसाइट www.sabindustries.in पर भी उपलब्ध है। 3. 23 मितंबर, 2025 की कटऑफ तिथि तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विमेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक बोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष कारोबार(ों) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट

4. कोई भी व्यक्ति जो बैठक की मुखना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि बानी 23 सितंबर, 2025 तक शेवर धारण करता है, वह रिमोट ई-बोर्टिंग के लिए एजीएम की सुचना में हिल्लिखित निर्देशों का पालन कर सकता है। यदि सदस्य पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएन के साथ पंजीवत है, तो वह रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से बोट डालने के लिए अपने मौजदा

यजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। कोई सदस्य रिमोट ई-बोर्टिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग से सकता है, सेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। दोनों तरीकों से मतदान करने की स्थिति में, रिमोट ई-बोर्टिंग के माध्यम से डाला गया वोट अंतिम माना

6. सदस्यों को मुचित किया जाता है कि (ए) रिमोट ई-बोटिंग 27 सितंबर, 2025 को मुबह 9:00 बजे शुरू होगी और 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। (ख) 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में मतदान की अनमति नहीं होगी। (म) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evotingindia.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पृथ्वे जाने वाले प्रच ("एफएक्व्") और ई-बोर्टिंग मैनुअल देख सकते हैं या टोल क्री नंबर 18002109911 पर संपर्क कर सकते हैं, या सीडीएसएल के वरिष्ठ प्रवंधक भी राकेश दलवी से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजवर या 022-23058542/43 पर वॉल करके

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से 24 सितंबर, 2025 मे 30 मिलंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

एसएबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए: विनांक: 03.09.2025 संजय गर्ग, वितिरिक्त प्रवंध निदेशक (डीआईएन: 00030956)

नोट:. भौतिक रूप में शेवर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण अर्थात पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमुना हस्ताक्षर आरटीए के साथ अपडेट करें और डीमैट फॉर्म में शेवर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपने केवाईसी और नामांकन को अपडेट करें, यदि पहले से ही सेवी मास्टर परिषव संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसटी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024 के जनुसार नहीं किया गया है। वेद-लिंक पर उपलब्ध:-https://www.sabindustries.in/kyc2022.html वेब-लिंक: https://www.sabindustries.in/a.html उन सदस्यों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट टाउनलोड करने के लिए प्रदान किया गया है, जिन्होंने कंपनी/डीपी/आरटीए के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।

थीमती शत्या तायल (अब दिवंगत) के नाम पर उनके कानृती उत्तराधिकारियों के माध्यम से।



स्थानः दिल्ली

दिनांकः 02.09.2025

पंजाब नेशनल बैंक 🕒 punjab national bank

एसएएमबी चंडीगढ़, एससीओ 60-61, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़, पिन 160017 टेलीफोन नंबर: 0172-5040788 और 796, ई-मेल: zs8340@pnb.co.in

ई-नीलामी / बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सुचना। सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण: ज्ञात नहीं।

'विलीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्नियाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002' के अंतर्गत अचल संपत्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विक्री सूचना, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन)।

लिहारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर (गारंटर) को सुचित करना होगा कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति(याँ) जो सुरक्षित ऋणदाता के पास र्बधक/दृष्टिकोण/प्रभारित है, जिसका रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा बैंक/सरक्षित ऋणदोता के प्राधिकत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे संबंधित उधारकर्ता (ऋणियों) और गारंटर (गारंटरों) से बैंक/मरक्षित ऋणदाता को देय राशि की वसुनी के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैनी है", "ओ है जैनी है" और "ओ कछ भी है" के आधार पर

वेचा जाएगा। आरक्षित मुख्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी। सरक्षित संपत्तियों की बिकी की अनसकी

	उधारकर्ता का नाम एवं बैंक शाखा का विवरण	क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि ख) मांग सूचना 13(2) के अनुसार राजि ग) कब्बे की प्रकृति एवं कब्बे की तिथि	संपत्ति(यों) के स्वामी/बंधककर्ता का नाम	अचल संपत्ति का विवरण। गिरवी रखी गई संपत्ति(याँ) और स्वामी/बंधककर्ताओं का नाम	आरक्षित मूल्य बयाना राशि जमा (इएमडी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी का तिथि और समय	संपत्ति के लिए क्यूआर कोड
	the state of the s	क) 11.02.2022 ख) 10.02.2022 तक 15,45,55,857.26 रुपये (पंद्रह करोड़ पैतालीस लाख पचपन	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		आर.पी.: इ. 6,43,95,000/- ईएमडी: इ. 64,39,500/-	- 15 9 10 2 1 0 G 12 12 1 C 12 1	
	और श्री अंकुर तायल पुत्र श्री प्रदीप तायल के माध्यम से)	हजार आठ सौ मलावन रुपये और छज्जीस पैसे मात्र) 11.02.2022 से प्रभावी अनुबंधित दर पर अतिरिक्त	कानूनी उत्तराधिकारियों अर्थात थीं प्रदीप	फुट है, यूनिट संख्या 200, जीडी आईटीएल नॉर्थेक्स टॉबर, प्लॉट संख्या ए-9, नेताजी सुभाष प्लेम,	बोली वृद्धि राशि: रु. 1,00,000/-		
ŀ	जीडी आईटीएल नॉर्थेक्स	ज्याज सहित, यदि कोई हो तो शुल्क और यदि कोई हो तो वसूली घटाकर	तायल, थी अकुर नायल और थी	पीतम पुरा, विल्ली-110034 में रि 08.07.2004] और हम्लानरण वि	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF		The state of the s

34, (2) थी। प्रदीप नावल पत्र स्व, बी.बी.नायल पना: मकान नंबर एकडी-32, विशाखा एन्क्नेब, पीतमपूरा, दिल्ली-34, (3) थीमती। मत्या नावल पत्नी प्रदीप नावल (मृतक के बाद से) अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम मे 3 ए.एस.एच. प्रदीप तायल, 3वी. थी अंकर तायल, 3सी. थी आशीप सभी निवासी मकान नंबर एचडी-32, विशाखा एन्क्लेब, पीतमपुरा, डिल्ली-32। शाखा:- पीएनबी-बीओ: सोनीपत मध्य (सील आईडी-043400)

माध्यम मे।

नोट: ई-नीलामी सीडब्ल्यपी संख्या 35230/2024, जिसका शीर्षक गरिमा गोयल बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य है, जो माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में विचाराधीन है और एसए संख्या 274/2024, जिसका शीर्षक प्रदीप तायल बनाम पंजाब नेशनल बैंक है, जो माननीय ऋण वसली न्यायाधिकरण-II, चंडीगड़ के समक्ष निपटान हेत् विचाराधीन है, के निर्णय के अधीन होगी।

संपर्क व्यक्तिः श्री एन. पी. सिंह, प्राधिकृत अधिकारी, एसएएमबी चंडीगढ़, मोबाइल: 8872042230 आरक्षित मृल्य SARFAESI अधिनियम 2002

संपत्ति(यों) के ई-नीलामी उधारकर्ता/गारंटर का अचल बंधक संपत्ति(यों) का विवरण की धारा 13(2) के अंतर्गत स्वामी/ बवाना राशि जमा (EMD) का तिथि मांग मुचना की तिथि और मांग नाम और पता बंधककर्ताओं और स्वामी/बंधककर्ताओं का नाम मुचना 13(2) के अनुसार बोली वृद्धि राशि और समय राशि करने की प्रकृति का नाम संपत्ति संख्या 4/928, द्वितीय तल, पिछला आरपी: रु 31,87,500/ 13.03.2015 रेसर्स रूपाना पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 25/09/2025 भाग, छोटा चिप्पीबाड़ा, चावडी बाजार, मबह 11:00 लेमिटेड बीओ: एलसीबी, चंडीगढ़ (सोल T 105.58,70.568.08 ईएमडी: र 3,18,750/ विल्ली में स्थित है, जिसका विक्रय विलेख बाईडी-420700) मेसर्स रूपाना पेपर मंज् अग्रवाल + ज्याज और अन्य सर्चे। बोली बद्धि राशि: संख्या 2466 दिनांक 16.11.1987 है। शाम 4:00 मेल्स प्राइवेट। लिमिटेड IV/928, छोटा भौतिक कळ्जा ₹ 32,000/-बने तक मंज अग्रवाल के नाम पर छपीबाड़ा, चावरी बाजार, दिल्ली, श्री। मरारी लाल अग्रवाल पत्र स्व. मांगी लाल आर.पी.: 31,87,500/- रुपर 25/09/2025 संपत्ति संख्या IV/928, दूसरी मंजिल, छत के अधिकार सहिट अँग्रवाल हाउस नंबर 5/28, पंजाबी बाग मबह 11:00 मीना अग्रवाल ईएमडी: 3,18,750/- नप सामने का भाग, 400 वर्ग फेट क्षेत्रफल बाला, छोटा किप्पीवाडा, वज म हस्ट, नई दिल्ली-110026, श्रीमती। मंज् चावडी बाजार, दिल्ली में स्थित, बिक्री बिलेख संख्या 2536 बोनी बद्धि राशि: शाम 4:00 अग्रवाल पत्नी स्व. मुरारी लाल अग्रवाल दिनांक 13.11.1998, मीना अग्रवाल के नाम पर। यजे तक ₹ 32,000/-मकान नंबर 5/28, पेंजाबी बाग ईस्ट, नई 25/09/2025 आर.पी.: 31,87,500/- श्परं देल्ली-110026, मेसर्स शिव वाणीजय पुष्पा अग्रवाल संपत्ति संख्या IV/928, पहली मंजिल, छोटा चिप्पीबाइ सुबार 11:00 कैप्सेक प्रा. लिमिटेड IV/928, छोटा ईएमडी: 3.18,750/- रूपां चावड़ी बाजार, दिल्ली में स्थित, बिक्री बिलेख संख्या 7690 पत्नी सरेश छपीबाड़ा, चावरी बाजार, दिल्ली, श्री। दिनांक 02.11.1993, पृष्पा अग्रवाल पत्नी सुरेश कुमार बोली बद्धि राशि: शाम 4:00 कुमार अग्रवाल एस.के. अग्रवाल पत्र स्य. मांगी लाल

अग्रवाल के नाम पर। अग्रवाल, मकान नंश्याम उद्योग बाईपास रोड, चास बोकारो स्टील सिटी चास.827013, दूसरा पता: हाउस नंबर 1398.सेक्टर 40-बी चंडीगढ़, तीसरा पता: IV/928 छोटा छपीबाड़ा, चावरी बाज़ार दिल्ली, थी. राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. सुरेश कुमार अग्रवाल हाउस नंबर 5/28, पूर्वी पंजाबी बाग, नुई दिल्ली-110026, थीमती। सरला अग्रवाल पुत्री श्री ए के. अग्रवाल, हाउस नेवर 5/28, पंजाबी बाग ईस्ट, नई दिल्ली-110026, मेसर्स विनिधाका कैप्सेक प्रा. लिमिटेड जेड-135, लोहा मंडी नारायणा, नई दिल्ली, श्री प्रेम कमार अग्रवाल पत्र स्व. मांगी लाल अग्रवाल, मकान नंबर 52 सूरज नगर, वेस्ट सोदला जैलपर-302019, श्रीमती। मीना अग्रवाल पत्नी प्रेम कमार अग्रवाल मकाने नंबर 52, सरज नगर, पश्चिम जयपुर, दूसरा पता: 5/28, ईस्टे पंजाबी बाग, दिल्ली, श्रीमती पूष्पा अग्रवाल पत्नी श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, श्याम उद्योग

बायपास रोड चार्स बोकारो, झारखंड, दसरा पता: ईस्ट पंजाबी बाग ईस्ट, नई दिल्ली-110026। नोट: दकानों के प्रवेश द्वार पर पड़ोसी दकानदार ने नाला लगा दिया है।

संपर्क व्यक्ति: बिन्नी भाटिया, प्राधिकृत अधिकारी, सांब चंडीगढ़, मोबाइल: 9888123104

-नीलामी विकी के नियम व शर्तें . बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शतों और निम्नलिखित अतिरिक्त शतों के अधीन होगी। नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम

वे ऑनलाइन होगी 2. इच्छक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल-आईटी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.com) पर पंजीकरण करें। ई-केबाईसी की प्रक्रिया डिजी लॉकर के माध्यम से की जानी है। ई-केवाईसी हो जाने के बाद, इच्छक बोलीदाला/खरीदार ई-नीलामी तिथि और समय से पहले पोर्टल पर ऑनलाइन/चालान मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को अपने ई-बॉलेट में स्थानांतरित कर सकते हैं। पंजीकरण, ई-केबाईसी का मत्यापन, बॉलेट में ईएमडी का स्थानांतरण और बॉलेट राशि को संपत्ति से जोड़ने की प्रक्रिया नीलामी से पहले ही पूरी कर ली जानी चाहिए।

3. ऊपर उल्लिखित बयाना राशि जमा (ईएमडी) राशि का भगतान ऑनलाइन/बालान मोड में किया जाएगा और बोलीदाताओं के ई-बॉलेट में जमा किया जाएगा: आवश्यक ईएमडी ऑनलाइन जमा

नहीं करने वाले बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमा की गई बचाना राशि पर कोई ज्याज नहीं लगेगा।

4. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://baanknet.com) ई-नीलामी सेवा प्रदाता सेसर्स पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय युनिट 1, तीसरी मंजिल, बीआईओएस कमर्शियल टॉबर, बडाला ट्रक टर्मिनल के पास, बडाला पूर्व में है। मुंबई-400037 (हेल्पडेस्क लंबर +91 8291220220, ईमेल आईडी: support.ebkray@psballiance.com)। इच्छक बोलीदाताओं/परीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://baanknet.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।

5. बिक्री के मामान्य नियम और अर्तों बाली बिक्री सचना निद्धलिखित बेबमाइटों/बेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है। a, https://baanknet.com.b. www.pnbindia.in

6. ई-नीलामी के इच्छक प्रतिभागी ई-नीलामी पोर्टल (https://baanknet.com) से विक्री सुचना, ई-नीलामी के नियम और शर्ते, इस ई-नीलामी से संबंधित ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैन्अल की प्रेतियां निःशल्क डाउनलोड कर सकते हैं। 7. बोली लगाने के समय बोलीदाता के ई-बॉलेट में पर्याप्त शेष (ईएमडी राजि से अधिक) होना चाहिए। 3. ई-मीलामी के दौरान, बोलीवाताओं को अंतिम बोली के अतिरिक्त परम्पर बोली में ऊंची बोली लगाने की अनमति होंगी और बोली राशि में बृद्धि उल्लिखित बृद्धि राशि के बरावर होनी चाहिए।

ोलीदाताओं को लगातार ऊंची बोली लगाने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उञ्चतम बोली के 10 मिनट बाद कोई बोलीदाता ऊंची बोली नहीं लगाता है, तो ई-नीलामी बंद . इच्छक बोलीदाता(ओं) की यह जिम्मेदारी है कि वे बिकी सचना, ई-नीलामी के नियम व शर्ते, ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सक्ती से पालन करें। 10, ई-लिमों प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता होने पर, बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेससे पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत

प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। लिमिटेड, जिसका विवरण वैंकनेट पोर्टन पर उपलब्ध है। 11. प्राधिकत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपर्युक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सुचित किया जाएगा। (उनवे द्वारा दिए गेए मोबाइल नंबर/ईमेल पते/सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत)

12. सरक्षित परिसंपत्ति को आरक्षित मृल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। सरक्षित परिसंपत्ति को केवल कम से कम एक वृद्धिशील बोली के साथ मंपत्ति के लिए निर्धारित आरक्षित मृल्य से अधिक मृल्य पर बेचा जाएगा। बोलीदाता, आरंभ के समय, संपत्ति के लिए निर्धारित आरक्षित मृख्य से कम से कम एक अधिक बोली बृद्धि देगा। आरक्षित मृख्य से अधिक कीमत प्राप्त करने में विफले रहने पर संपत्ति नहीं वेची जाएगी और नीलामी की पुष्टि नहीं की जाएगी।

13. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पञ्चीस प्रतिशत), जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर, उसी दिन या अगले कार्यदिवस से पहले जमा करना होगा और शेष राशि विक्री की पृष्टि की वारीख से 15 दिनों के भीतर एनईएफटी/आरटीजीएन/आईएमपीएस के साध्यम से खाता संख्या में जमा करनी होगी। 834000317118A, आईएफएससी कोड PUNB0834000, पंजाब नेशनल कि, सैम शाखा, चंडीगढ़ या किसी अनुसुचित वाणिज्यिक वैंक द्वारा जारी बैंकर्स चेक/डिमांड डाफ्ट के रूप में, जो "प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, खाता (विविध एनपीए सरफेसी नीलामी से संबंधित) चंडीगढ़ में देय" के पक्ष में हीं। निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक में जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और चुककर्ता बोलीदाता का जब्त राजि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।

14. सफल बोलीदाता द्वारा वैंक को बिक्री मुल्य का भगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए के अंतर्गत टीटीएस के अधीन होगा और सफल बोलीदाता द्वारा बोली राजि का शेष 75%/बोजी राशि की पुरी जमा राशि जमा करेते समय ही टीडीएस का भगतान किया जाएगा।

15. प्राधिकत अधिकारी किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न पाई जाएँ, या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रह/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। 16. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूरी बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। बोली में उल्लिखित नामों के अलावा, विक्री प्रमाणपत्र में नामों

को शामिल करने/प्रतिस्थापित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। विकी प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर जारी किया जाएगा। 17. संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" और "ओ है जैसी है" तथा "ओ कुछ भी है" के आधार पर बेची जा रही हैं। 18. उपर्युक्त अनुसुची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी वृटि, गलत विवरण या चक्र के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

19. बोली लगाने से पहले परिसंपत्ति और विनिर्देशों का निरीक्षण करना और स्वयं को संतृष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारी के परामर्थ से संपत्ति का निरीक्षण करेगा। 20. पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देव/परिचर शुल्क/अन्य देव राशि केता को वहन करनी होगी। 21. प्राधिकन अधिकारी या बैंक, बैंक को जान न होने वाली संपत्तियों (ई-सीलामी) के संबंध में सरकार या किसी अन्य को दिए गए किसी भी शल्क, यहणाधिकार, ऋणभार या किसी अन्य बकाया वे

लेए उत्तरदायी नहीं होगा। इज्छक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली के बकाया आदि मेहित संपत्ति पर ऋणों के बारे में स्वयं स्थतंत्र जांच करें।

22. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक-अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट विफलता, विजली विफलता या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले किसी भी कारण/आकस्मिकता के कारण होने वाले किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। 23. बैंक एक प्रतिनिधि नियक्त कर सकता है. स्वयं बोली लगा सकता है और नीलामी में भाग ले सकता है।

बिक्री की बिस्तुत शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। दिनांक: 03.09.2025

पंजाब नेशनल बैंक, एसएएमबी, चंडीगढ़

प्राधिकृत अधिकारी

epaper.jansatta.com

स्थान: चंडीगढ़